

प्रेस नोट दिनांक 23.05.2021

इटावा पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 02 सदस्यों को चोरी की 03 मोटरसाइकिलों एवं अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ०बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा,क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 02 सदस्यों को चोरी की 03 मोटरसाइकिलों एवं अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.05.2021 को थाना बकेवर पर वादी सुन्दरम पुत्र दीपचन्द निवासी मातन मुहाल लखना द्वारा सूचना दी कि आज दोपहर 12 बजे के करीब मेरी स्प्लैण्डर मोटरसाइकिल संख्या UP-75AK-9549 चोरी हो गयी है । वादी की तहरीर के आधार पर थाना बकेवर पर मु०अ०स० 228/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात चोर अभियोग पंजीकृत किया गया । इसी क्रम में दिनांक 22.05.2021 की रात्रि 10 बजे के करीब मुखबिर द्वारा थाना बकेवर पुलिस को सूचना दी कि आज दिन में लखना से जो मोटरसाइकिल चोरी की गयी है उसे कुछ बदमाश बेचने की फिराक में रेन्ज कोठी के पास मड़ौली मोड़ के पास खड़े हैं । मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर 02 अभियुक्तों को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर,02 जिन्दा कारतूस व 01 चाकू बरामद किया गया ।

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया कि यह मोटरसाइकिल हम लोगो द्वारा आज लखना से चोरी की गयी है ।पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया कि हम लोग भीड़-भाड़ वाले इलाकों से मौका पाकर मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं तथा गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की गयी दो अन्य मोटरसाइकिलों को कोठी रेन्ज के पीछे से बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.उपदेश पुत्र जयवीर सिंह निवासी कमलपुर थाना करहल जनपद मैनपुरी ।
- 2.राजकुमार उर्फ लाल जी पुत्र स्व० रामस्वरूप निवासी दयारामपुरुवा थाना अछल्दा जनपद औरैया ।

पंजीकृत अभियोग-

- 1.मु०अ०स० 228/21 धारा 379 /411 भादवि थाना बकेवर
- 2.मु०अ०स० 229/21 धारा 411/413 भादवि थाना बकेवर
- 3.मु०अ०स० 230/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर

4.मु0अ0स0 231/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर

बरामदगी-

1.01 मोटरसाइकिल पैशन प्रो बिना नम्बर

2.01 मोटरसाइकिल एपाचे संख्या HR-10P-5376

3.01 स्प्लैण्डर मोटरसाइकिल संख्या UP-75AK-9549(दिनांक 22.05.2021 को थाना बकेवर से चोरी हुयी घटना से संबंधित)

4.01 तमंचा 315 बोर

5.02 कारतूस 315 बोर

6.01 चाकू

पुलिस टीम- श्री संजय कुमार दुबे थानाध्यक्ष बकेवर,उ0नि0 अजय कुमार,उ0नि0 श्री प्रेमचन्द्र, का0 ललित कुमार,का0 रमन कुमार,का0 दर्शन,का0 परविन्द,का0 अवनीश,का0 अरविन्द

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा।